

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215287

CG-DL-E-10012020-215287

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941

No. 89]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/ PAUSHA 16, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

का.आ. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास-ब्यावर-आसींद-माण्डल) के कि.मी. 36.000 से कि.मी. 44.100 और कि.मी. 46.350 से कि.मी. 48.100 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी भीम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास-ब्यावर-आसींद-माण्डल) के कि.मी. 36.600 से कि.मी. 44.100 और कि.मी. 46.350 से कि.मी. 48.100 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: राजसमंद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भीम					
गांव का नाम: अमरपुरा					
1	1 mi	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.1859000(हेक्टेयर)	0.1859000
2	101	निजी	चाही 1	0.0946000(हेक्टेयर)	0.0946000
3	106	निजी	चाही 1	0.1962000(हेक्टेयर)	0.1962000
4	108	निजी	चाही 1	0.0841000(हेक्टेयर)	0.0841000
5	116	निजी	चाही 1	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
6	184	निजी	गै.मु. आबादी	0.0003000(हेक्टेयर)	0.0003000
7	190	निजी	चाही 1	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
8	193	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0264000(हेक्टेयर)	0.0264000
9	2	निजी	गै.मु. आबादी	0.0468000(हेक्टेयर)	0.0468000
10	206	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0456000(हेक्टेयर)	0.0456000

11	207	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0314000(हेक्टेयर)	0.0314000
12	214	निजी	बारानी 1	0.1326000(हेक्टेयर)	0.1326000
13	215	निजी	बारानी 1	0.0609000(हेक्टेयर)	0.0609000
14	218	निजी	बारानी 1	0.0604000(हेक्टेयर)	0.0604000
15	219	निजी	बारानी 1	0.0648000(हेक्टेयर)	0.0648000
16	282/91	निजी	बंजड़	0.0055000(हेक्टेयर)	0.0055000
17	293/1	सरकारी	स्कूल	0.1027000(हेक्टेयर)	0.1027000
18	88	सरकारी	चरागाह	0.0310000(हेक्टेयर)	0.0310000
गांव का नाम: बार					
1	1362/834	निजी	गै.मु.चाह	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
2	576	निजी	बंजड़	0.0510000(हेक्टेयर)	0.0510000
3	577	निजी	बारानी १	0.0274000(हेक्टेयर)	0.0274000
4	578	निजी	बारानी १	0.0280000(हेक्टेयर)	0.0280000
5	580	निजी	बारानी १	0.0246000(हेक्टेयर)	0.0246000
6	581	निजी	बारानी १	0.0398000(हेक्टेयर)	0.0398000
7	583	निजी	बारानी १	0.0267000(हेक्टेयर)	0.0267000
8	585	निजी	बंजड़	0.1204000(हेक्टेयर)	0.1204000
9	587	निजी	बारानी 1	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
10	717	निजी	बारानी १	0.0129000(हेक्टेयर)	0.0129000
11	719	निजी	बारानी १	0.0012000(हेक्टेयर)	0.0012000
12	720	निजी	बंजड़	0.0317000(हेक्टेयर)	0.0317000
13	721	निजी	बारानी १	0.0337000(हेक्टेयर)	0.0337000
14	722	निजी	बारानी १	0.0251000(हेक्टेयर)	0.0251000
15	723	निजी	बारानी २	0.0085000(हेक्टेयर)	0.0085000
16	724	निजी	बारानी १	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000

17	725	निजी	बारानी १	0.0096000(हेक्टेयर)	0.0096000
18	726	निजी	बारानी १	0.0306000(हेक्टेयर)	0.0306000
19	727	निजी	बारानी १	0.0460000(हेक्टेयर)	0.0460000
20	728	सरकारी	गै.मु.मगरी	0.0157000(हेक्टेयर)	0.0157000
21	729	निजी	बारानी १	0.0462000(हेक्टेयर)	0.0462000
22	785 Mi	सरकारी	गै.मु.नाडी	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
23	789	निजी	बंजड़	0.0707000(हेक्टेयर)	0.0707000
24	795	निजी	बारानी २	0.0362000(हेक्टेयर)	0.0362000
25	797	निजी	बारानी २	0.0032000(हेक्टेयर)	0.0032000
26	798	सरकारी	गै.मु.चट्टान	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
27	799	निजी	बारानी २	0.0722000(हेक्टेयर)	0.0722000
28	800	निजी	बारानी २	0.0248000(हेक्टेयर)	0.0248000
29	801	निजी	बारानी २	0.0412000(हेक्टेयर)	0.0412000
30	802	निजी	गै.मु.मगरी	0.1230000(हेक्टेयर)	0.1230000
31	804	निजी	बारानी २	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
32	805	निजी	बारानी २	0.0771000(हेक्टेयर)	0.0771000
33	806	निजी	गै.मु.खड्डा	0.0001000(हेक्टेयर)	0.0001000
34	808	निजी	बारानी २	0.0374000(हेक्टेयर)	0.0374000
35	809	निजी	बारानी २	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
36	810	निजी	बारानी २	0.0220000(हेक्टेयर)	0.0220000
37	811	निजी	बारानी १	0.0201000(हेक्टेयर)	0.0201000
38	822	निजी	बंजर	0.2365000(हेक्टेयर)	0.2365000
39	823	निजी	बारानी २	0.0343000(हेक्टेयर)	0.0343000
40	824	निजी	बारानी २	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000

41	834 Mi	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.3378000(हेक्टेयर)	0.3378000
गांव का नाम: बाडिया हीरा					
1	1	सरकारी	गै.मु.जंगल	1.2859000(हेक्टेयर)	1.2859000
2	322	सरकारी	गै.मु.मगरी	0.0606000(हेक्टेयर)	0.0606000
3	338	निजी	गै.मु.आबादी	0.0814000(हेक्टेयर)	0.0814000
4	339	सरकारी	गै.मु.पाल	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
5	340	सरकारी	बंझड़	0.1774000(हेक्टेयर)	0.1774000
6	392	निजी	बंझड़	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
7	493	निजी	बंझड़	0.0724000(हेक्टेयर)	0.0724000
8	495	निजी	नहरी 2	0.0317000(हेक्टेयर)	0.0317000
9	497	निजी	नहरी 2	0.0337000(हेक्टेयर)	0.0337000
10	54	सरकारी	गै.मु.मगरी	0.0107000(हेक्टेयर)	0.0107000
11	545	सरकारी	बंझड़	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
12	55	निजी	बारानी 2	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
13	56	निजी	बारानी 1	0.0509000(हेक्टेयर)	0.0509000
14	57	निजी	बारानी 1	0.0333000(हेक्टेयर)	0.0333000
15	578/24	सरकारी	गै.मु.जंगल	0.1874000(हेक्टेयर)	0.1874000
16	58	निजी	बंझड़	0.0011000(हेक्टेयर)	0.0011000
17	581/54	सरकारी	गै.मु.जंगल	0.5985000(हेक्टेयर)	0.5985000
18	599/81	निजी	गै.मु.आबादी	0.0724000(हेक्टेयर)	0.0724000
19	628/3	निजी	बंझड़	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000
20	629/3	निजी	बंझड़	0.0012000(हेक्टेयर)	0.0012000
21	68	निजी	बंझड़	0.0334000(हेक्टेयर)	0.0334000
22	81 mi	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.1070000(हेक्टेयर)	0.1070000
23	82	निजी	पेटा	0.0617000(हेक्टेयर)	0.0617000

24	83	निजी	पेटा	0.0302000(हेक्टेयर)	0.0302000
25	84	निजी	पेटा	0.0528000(हेक्टेयर)	0.0528000
गांव का नाम: फाटाखेड़ा					
1	1000	सरकारी	बंझड़	0.0157000(हेक्टेयर)	0.0157000
2	1008	निजी	चाही 3 जाव 3	0.0232000(हेक्टेयर)	0.0232000
3	1009	निजी	बंझड़	0.0539000(हेक्टेयर)	0.0539000
4	1010	निजी	बंझड़	0.0011000(हेक्टेयर)	0.0011000
5	1011	निजी	बंझड़	0.0585000(हेक्टेयर)	0.0585000
6	1015	निजी	बारानी 1	0.0167000(हेक्टेयर)	0.0167000
7	1016	निजी	बारानी 1	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
8	1017	निजी	जाव 3 चाही 3	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
9	1018	निजी	चाही 3 जाव 3	0.0184000(हेक्टेयर)	0.0184000
10	1019	निजी	चाही 1 जाव 1	0.0072000(हेक्टेयर)	0.0072000
11	1020	निजी	जाव 3	0.0077000(हेक्टेयर)	0.0077000
12	1023	निजी	चाही 3	0.0095000(हेक्टेयर)	0.0095000
13	1035/998	निजी	गै.मु.पाल	0.0267000(हेक्टेयर)	0.0267000
14	1067/762	निजी	बंझड़	0.0114000(हेक्टेयर)	0.0114000
15	1068/762	निजी	बंझड़	0.0135000(हेक्टेयर)	0.0135000
16	1069/762	निजी	बंझड़	0.0057000(हेक्टेयर)	0.0057000
17	1070/762	निजी	बंझड़	0.0116000(हेक्टेयर)	0.0116000
18	1071/762	निजी	बंझड़	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
19	1072/762	निजी	बंझड़	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000
20	580	सरकारी	शमशान	0.1098000(हेक्टेयर)	0.1098000
21	584	निजी	बारानी 2	0.0124000(हेक्टेयर)	0.0124000
22	585	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000

23	586	सरकारी	बंझड़	0.0220000(हेक्टेयर)	0.0220000
24	594	निजी	गै.मु.मगरी	0.0161000(हेक्टेयर)	0.0161000
25	596	निजी	चाही 2	0.0082000(हेक्टेयर)	0.0082000
26	598	निजी	चाही 1 जाव 1	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
27	599	निजी	चाही 2	0.0735000(हेक्टेयर)	0.0735000
28	623	निजी	जाव 2 चाही 2	0.0483000(हेक्टेयर)	0.0483000
29	647	निजी	बंझड़	0.0011000(हेक्टेयर)	0.0011000
30	679	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0581000(हेक्टेयर)	0.0581000
31	680	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0111000(हेक्टेयर)	0.0111000
32	681	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0118000(हेक्टेयर)	0.0118000
33	683	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
34	684	निजी	बंझड़	0.0105000(हेक्टेयर)	0.0105000
35	685	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
36	686	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
37	695 Mi	निजी	बंझड़	0.0022000(हेक्टेयर)	0.0022000
38	761	निजी	पेटा	0.0083000(हेक्टेयर)	0.0083000
39	762 Mi	निजी	बंझड़	0.0859000(हेक्टेयर)	0.0859000
40	763	सरकारी	गै.मु.पाल	0.0290000(हेक्टेयर)	0.0290000
41	765	सरकारी	गै.मु.मगरी	0.0388000(हेक्टेयर)	0.0388000
42	766	निजी	बंझड़	0.0187000(हेक्टेयर)	0.0187000
43	767	निजी	बंझड़	0.0180000(हेक्टेयर)	0.0180000
44	768	निजी	बंझड़	0.0558000(हेक्टेयर)	0.0558000
45	769	निजी	बंझड़	0.0290000(हेक्टेयर)	0.0290000
46	770	सरकारी	बंझड़	0.0407000(हेक्टेयर)	0.0407000
47	771	निजी	बंझड़	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000

48	773	निजी	बारानी 1	0.0439000(हेक्टेयर)	0.0439000
49	793	सरकारी	चरागाह	0.0803000(हेक्टेयर)	0.0803000
50	817	सरकारी	चरागाह	0.0929000(हेक्टेयर)	0.0929000
51	818	सरकारी	चरागाह	0.2983000(हेक्टेयर)	0.2983000
52	819	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0109000(हेक्टेयर)	0.0109000
53	821	निजी	गै.मु.चाह	0.0001000(हेक्टेयर)	0.0001000
54	822	निजी	चाही 1	0.1407000(हेक्टेयर)	0.1407000
55	823	निजी	चाही 2 जाव 2	0.0343000(हेक्टेयर)	0.0343000
56	824	निजी	बारानी 1	0.0222000(हेक्टेयर)	0.0222000
57	826	निजी	बारानी 2	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
58	828	निजी	बारानी 1	0.0061000(हेक्टेयर)	0.0061000
59	831	निजी	बंझड़	0.1602000(हेक्टेयर)	0.1602000
60	832	निजी	बारानी 1	0.1903000(हेक्टेयर)	0.1903000
61	836	निजी	चाही 2	0.0009000(हेक्टेयर)	0.0009000
62	837	निजी	जाव 2 चाही 2	0.1359000(हेक्टेयर)	0.1359000
63	838	निजी	चाही 1	0.0038000(हेक्टेयर)	0.0038000
64	993	निजी	पेटा	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
65	994	निजी	पेटा	0.0666000(हेक्टेयर)	0.0666000
66	995	निजी	पेटा	0.0997000(हेक्टेयर)	0.0997000
67	999	सरकारी	गै.मु.सड़क	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
गांव का नाम: जसवंतपुरा					
1	379	निजी	गै.मु. आबादी	0.1705000(हेक्टेयर)	0.1705000
2	109	निजी	बंझड़	0.0351000(हेक्टेयर)	0.0351000
3	110	निजी	बंझड़	0.2011000(हेक्टेयर)	0.2011000
4	111	निजी	बारानी 2	0.0164000(हेक्टेयर)	0.0164000

5	112	निजी	बंझड़	0.3027000(हेक्टेयर)	0.3027000
6	113	निजी	बारानी 2	0.0343000(हेक्टेयर)	0.0343000
7	118	निजी	बारानी 2	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
8	131	निजी	बारानी 2	0.0116000(हेक्टेयर)	0.0116000
9	132	निजी	गै.मु.चाह	0.0123000(हेक्टेयर)	0.0123000
10	133	निजी	बारानी 2	0.0083000(हेक्टेयर)	0.0083000
11	139	निजी	बंझड़	0.1112000(हेक्टेयर)	0.1112000
12	141	निजी	बंझड़	0.1470000(हेक्टेयर)	0.1470000
13	142	निजी	बारानी 2	0.0193000(हेक्टेयर)	0.0193000
14	146	निजी	गै.मु. नहर	0.0156000(हेक्टेयर)	0.0156000
15	197	निजी	गै.मु. आबादी	0.0558000(हेक्टेयर)	0.0558000
16	200	निजी	चाही 1, जाव 1	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
17	202 Mi	निजी	चाही 1	0.0123000(हेक्टेयर)	0.0123000
18	203	निजी	चाही 1	0.0238000(हेक्टेयर)	0.0238000
19	204	निजी	चाही 1	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
20	205	निजी	चाही 1	0.0189000(हेक्टेयर)	0.0189000
21	207	निजी	बारानी 1	0.0324000(हेक्टेयर)	0.0324000
22	208	निजी	बारानी 1	0.0081000(हेक्टेयर)	0.0081000
23	209	निजी	चाही 1, जाव 1	0.0165000(हेक्टेयर)	0.0165000
24	211	निजी	चाही 1, गै.मु.	0.0294000(हेक्टेयर)	0.0294000
25	225	निजी	चाही 1	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
26	364	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.1764000(हेक्टेयर)	0.1764000
27	371 Mi	सरकारी	चरागाह	0.2392000(हेक्टेयर)	0.2392000
28	372	सरकारी	गै.मु.दाती	0.1593000(हेक्टेयर)	0.1593000
29	374	सरकारी	गै.मु. पहाड़	0.0843000(हेक्टेयर)	0.0843000

30	377 Mi	निजी	बंझड़	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
31	378	निजी	बारानी 1	0.0214000(हेक्टेयर)	0.0214000
32	381	निजी	बंझड़	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
33	382	निजी	बारानी 1	0.0528000(हेक्टेयर)	0.0528000
34	386 Mi	निजी	नहरी 2	0.0556000(हेक्टेयर)	0.0556000
35	387	निजी	बंझड़	0.0066000(हेक्टेयर)	0.0066000
36	388	निजी	नहरी 2	0.0696000(हेक्टेयर)	0.0696000
37	389	निजी	नहरी 2	0.0323000(हेक्टेयर)	0.0323000
38	424	निजी	चाही 1	0.0013000(हेक्टेयर)	0.0013000
39	445	निजी	चाही 1	0.0017000(हेक्टेयर)	0.0017000
40	446	निजी	चाही 1	0.0054000(हेक्टेयर)	0.0054000
41	447	निजी	चाही 1	0.0112000(हेक्टेयर)	0.0112000
42	448 mi	निजी	बंझड़	0.0165000(हेक्टेयर)	0.0165000
43	477	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.1632000(हेक्टेयर)	0.1632000
44	478	निजी	बंझड़	0.0082000(हेक्टेयर)	0.0082000
45	479	निजी	बारानी 2	0.0197000(हेक्टेयर)	0.0197000
46	480	निजी	बारानी 2	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000
47	487	निजी	बंझड़	0.0043000(हेक्टेयर)	0.0043000
48	488	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.0724000(हेक्टेयर)	0.0724000
49	494/371	सरकारी	पाठशाला	0.0483000(हेक्टेयर)	0.0483000
50	495/372	सरकारी	श्मशान	0.0257000(हेक्टेयर)	0.0257000
51	507/383	निजी	बंझड़	0.0361000(हेक्टेयर)	0.0361000
52	508/384	निजी	नहरी 2	0.0451000(हेक्टेयर)	0.0451000
53	511/125	निजी	बंझड़	0.4180000(हेक्टेयर)	0.4180000

54	512/130	निजी	बारानी 2	0.0381000(हेक्टेयर)	0.0381000
55	514/202	निजी	चाही 1	0.0165000(हेक्टेयर)	0.0165000
56	515/448	निजी	बंझड़	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
गांव का नाम: कानिया खेड़ा					
1	141	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0147000(हेक्टेयर)	0.0147000
2	147	निजी	बारानी 1	0.0045000(हेक्टेयर)	0.0045000
3	148	निजी	गै.मु.चाह	0.0033000(हेक्टेयर)	0.0033000
4	247	सरकारी	"पथवारी गै.मु."	0.0087000(हेक्टेयर)	0.0087000
5	248	निजी	"चाही 3 जाव 3"	0.0015000(हेक्टेयर)	0.0015000
6	249	निजी	"चाही 3 जाव 3"	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
7	261	निजी	बारानी 2	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
8	262	निजी	"चाही 3 जाव 3"	0.0033000(हेक्टेयर)	0.0033000
9	264	निजी	गै.मु.आबादी	0.0293000(हेक्टेयर)	0.0293000
10	266	निजी	बारानी 2	0.0083000(हेक्टेयर)	0.0083000
11	269	निजी	"चाही 3 जाव 3"	0.0824000(हेक्टेयर)	0.0824000
12	270	निजी	"चाही 3 जाव 3"	0.0955000(हेक्टेयर)	0.0955000
गांव का नाम: पीपली का बाडिया					
1	101	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
2	102	निजी	"जाव 2 चाही 2"	0.0263000(हेक्टेयर)	0.0263000
3	112	निजी	गै.मु.रास्ता	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
4	113	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0378000(हेक्टेयर)	0.0378000
5	114	निजी	"जाव 2 चाही 2"	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
6	115	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
7	116	निजी	गै.मु.आबादी	0.0160000(हेक्टेयर)	0.0160000
8	117	निजी	चाही 2	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000

9	121	निजी	गै.मु.मकान	0.0514000(हेक्टेयर)	0.0514000
10	122	निजी	"जाव 3 चाही 3"	0.0902000(हेक्टेयर)	0.0902000
11	123	निजी	गै.मु.चाह	0.0342000(हेक्टेयर)	0.0342000
12	124	निजी	जाव 3	0.0435000(हेक्टेयर)	0.0435000
13	125	निजी	बारानी 1	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
14	126	निजी	बारानी 1	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
15	128	सरकारी	चरागाह	0.3562000(हेक्टेयर)	0.3562000
16	151	सरकारी	चरागाह	0.5361000(हेक्टेयर)	0.5361000
17	2176/384	निजी	गै.मु.आबादी	0.0045000(हेक्टेयर)	0.0045000
18	2178/786	निजी	बंझड	0.1456000(हेक्टेयर)	0.1456000
19	2197/151	निजी	गै.मु.आबादी	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
20	2209/729	निजी	चाही 1	0.0004000(हेक्टेयर)	0.0004000
21	237	निजी	बंझड	0.0085000(हेक्टेयर)	0.0085000
22	238	निजी	गै.मु.बाडा	0.0551000(हेक्टेयर)	0.0551000
23	239	निजी	तालाब 2	0.0295000(हेक्टेयर)	0.0295000
24	240	निजी	चाही 1	0.0471000(हेक्टेयर)	0.0471000
25	241	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0044000(हेक्टेयर)	0.0044000
26	243	निजी	चाही 1	0.0045000(हेक्टेयर)	0.0045000
27	244	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0095000(हेक्टेयर)	0.0095000
28	245	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0067000(हेक्टेयर)	0.0067000
29	246	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0054000(हेक्टेयर)	0.0054000
30	247	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0041000(हेक्टेयर)	0.0041000
31	248	निजी	गै.मु.आबादी	0.0052000(हेक्टेयर)	0.0052000
32	249	निजी	गै.मु.आबादी	0.0498000(हेक्टेयर)	0.0498000
33	254	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0115000(हेक्टेयर)	0.0115000

34	258	निजी	गै.मु.	0.0494000(हेक्टेयर)	0.0494000
35	259	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0639000(हेक्टेयर)	0.0639000
36	26	निजी	गै.मु.पाल	0.0157000(हेक्टेयर)	0.0157000
37	271	निजी	चाही 1	0.0247000(हेक्टेयर)	0.0247000
38	272	निजी	चाही 1	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
39	273	निजी	चाही 1	0.0369000(हेक्टेयर)	0.0369000
40	274	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0081000(हेक्टेयर)	0.0081000
41	294	निजी	गै.मु.पाल	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
42	296	निजी	"जाव 3 चाही 3"	0.0736000(हेक्टेयर)	0.0736000
43	297	निजी	बारानी 1	0.0243000(हेक्टेयर)	0.0243000
44	298	निजी	गै.मु.चाह	0.0132000(हेक्टेयर)	0.0132000
45	299	निजी	बंझड़	0.0797000(हेक्टेयर)	0.0797000
46	30	निजी	चाही 1	0.0432000(हेक्टेयर)	0.0432000
47	300	निजी	बारानी 2	0.0053000(हेक्टेयर)	0.0053000
48	301	निजी	बारानी 1	0.0009000(हेक्टेयर)	0.0009000
49	310	निजी	बंझड़	0.0385000(हेक्टेयर)	0.0385000
50	32	निजी	चाही 1	0.0527000(हेक्टेयर)	0.0527000
51	329	निजी	बंझड़	0.0242000(हेक्टेयर)	0.0242000
52	33	निजी	बंझड़	0.0201000(हेक्टेयर)	0.0201000
53	330	निजी	बंझड़	0.0094000(हेक्टेयर)	0.0094000
54	34	निजी	बारानी 1	0.0701000(हेक्टेयर)	0.0701000
55	35	निजी	बारानी 1	0.0364000(हेक्टेयर)	0.0364000
56	36	निजी	चाही 1	0.0038000(हेक्टेयर)	0.0038000
57	361	निजी	बंझड़	0.0534000(हेक्टेयर)	0.0534000
58	370	निजी	बंझड़	0.0088000(हेक्टेयर)	0.0088000

59	371	निजी	बंझड़	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
60	378	निजी	बंझड़	0.0167000(हेक्टेयर)	0.0167000
61	38	निजी	चाही 1	0.1003000(हेक्टेयर)	0.1003000
62	380	निजी	बारानी 1	0.0008000(हेक्टेयर)	0.0008000
63	382	निजी	बारानी 2	0.0684000(हेक्टेयर)	0.0684000
64	384	निजी	गै.मु.आबादी	0.0092000(हेक्टेयर)	0.0092000
65	39	निजी	बारानी 1	0.0131000(हेक्टेयर)	0.0131000
66	40	निजी	बंझड़	0.0340000(हेक्टेयर)	0.0340000
67	41	निजी	बारानी 1	0.0184000(हेक्टेयर)	0.0184000
68	45	निजी	बारानी 2	0.0136000(हेक्टेयर)	0.0136000
69	452	निजी	बंझड़	0.0332000(हेक्टेयर)	0.0332000
70	453	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.1001000(हेक्टेयर)	0.1001000
71	455	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0118000(हेक्टेयर)	0.0118000
72	456	निजी	"चाही 1 जाव 1"	0.0295000(हेक्टेयर)	0.0295000
73	457	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0244000(हेक्टेयर)	0.0244000
74	458	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0110000(हेक्टेयर)	0.0110000
75	459	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0004000(हेक्टेयर)	0.0004000
76	46	निजी	बारानी 2	0.0415000(हेक्टेयर)	0.0415000
77	460	निजी	गै.मु.चाह	0.0188000(हेक्टेयर)	0.0188000
78	47	निजी	बारानी 2	0.1029000(हेक्टेयर)	0.1029000
79	478	सरकारी	गै.मु.मगरी	0.0035000(हेक्टेयर)	0.0035000
80	48	निजी	चाही 2	0.0173000(हेक्टेयर)	0.0173000
81	50	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0578000(हेक्टेयर)	0.0578000
82	51	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0340000(हेक्टेयर)	0.0340000
83	52	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000

84	612	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0026000(हेक्टेयर)	0.0026000
85	615	निजी	बारानी 2	0.0029000(हेक्टेयर)	0.0029000
86	726	निजी	बंझड़	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
87	727	निजी	गै.मु.चाह	0.0193000(हेक्टेयर)	0.0193000
88	728	निजी	चाही 1	0.0421000(हेक्टेयर)	0.0421000
89	730	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
90	744	निजी	चाही 1	0.0166000(हेक्टेयर)	0.0166000
91	745	निजी	गै.मु.आबादी	0.0364000(हेक्टेयर)	0.0364000
92	748	निजी	पेटा	0.0073000(हेक्टेयर)	0.0073000
93	749	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0153000(हेक्टेयर)	0.0153000
94	750	निजी	गै.मु.ओड़वा	0.0155000(हेक्टेयर)	0.0155000
95	751	निजी	"जाव 2 चाही 2"	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
96	752	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
97	753	निजी	"चाही 2 जाव 2"	0.0229000(हेक्टेयर)	0.0229000
98	754	निजी	बारानी 2	0.0166000(हेक्टेयर)	0.0166000
99	757	निजी	बारानी 2	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
100	758	निजी	बारानी 2	0.0362000(हेक्टेयर)	0.0362000
101	766	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
102	768	निजी	गै.मु.आबादी	0.0349000(हेक्टेयर)	0.0349000
103	769	निजी	गै.मु.चाह	0.0214000(हेक्टेयर)	0.0214000
104	770	निजी	गै.मु.बाड़ा	0.0049000(हेक्टेयर)	0.0049000
105	772	निजी	"जाव 1 चाही 1"	0.0395000(हेक्टेयर)	0.0395000
106	781	निजी	बंझड़	0.0581000(हेक्टेयर)	0.0581000
107	784	निजी	बंझड़	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000
108	785	निजी	बारानी 1	0.0707000(हेक्टेयर)	0.0707000

109	786	निजी	बारानी 1	0.0044000(हेक्टेयर)	0.0044000
110	787	निजी	बंझड़	0.1214000(हेक्टेयर)	0.1214000
111	834 mi	सरकारी	गै.मु.मगरी	0.0749000(हेक्टेयर)	0.0749000
112	955/44	निजी	बारानी 2	0.0172000(हेक्टेयर)	0.0172000
कुल				16.3273	16.3273

[फा. सं. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3A9]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 97(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway 158 (Ras-Beawer-Asind-Mandal section) in the stretch of land from Km 36.000 to Km 44.100 and 46.350 to Km 48.100 in the district of RAJSAMAND in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Bhim in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway 158 (Ras-Beawer-Asind-Mandal section) in the stretch of land from Km 36.600 to Km 44.100 and 46.350 to Km 48.100 in the district of Rajsamand in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: RAJSAMAND			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhim					
Village: Amarpura					
1	1 mi	Government	Ge.Mu.Pahad	0.1859000(Hectare)	0.1859000

2	101	Private	Chahi 1	0.0946000(Hectare)	0.0946000
3	106	Private	Chahi 1	0.1962000(Hectare)	0.1962000
4	108	Private	Chahi 1	0.0841000(Hectare)	0.0841000
5	116	Private	Chahi 1	0.0228000(Hectare)	0.0228000
6	184	Private	Ge.Mu.Aabadi	0.0003000(Hectare)	0.0003000
7	190	Private	Chahi 1	0.0010000(Hectare)	0.0010000
8	193	Private	Chahi 1, Jaav 1	0.0264000(Hectare)	0.0264000
9	2	Private	Ge.Mu.Aabadi	0.0468000(Hectare)	0.0468000
10	206	Private	Chahi 1, Jaav 1	0.0456000(Hectare)	0.0456000
11	207	Private	Chahi 1, Jaav 1	0.0314000(Hectare)	0.0314000
12	214	Private	Barani 1	0.1326000(Hectare)	0.1326000
13	215	Private	Barani 1	0.0609000(Hectare)	0.0609000
14	218	Private	Barani 1	0.0604000(Hectare)	0.0604000
15	219	Private	Barani 1	0.0648000(Hectare)	0.0648000
16	282/91	Private	Banjar	0.0055000(Hectare)	0.0055000
17	293/1	Government	School	0.1027000(Hectare)	0.1027000
18	88	Government	Charagah	0.0310000(Hectare)	0.0310000
Village: Baar					
1	1362/834	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0100000(Hectare)	0.0100000
2	576	Private	Banjad	0.0510000(Hectare)	0.0510000
3	577	Private	Barani 1	0.0274000(Hectare)	0.0274000
4	578	Private	Barani 1	0.0280000(Hectare)	0.0280000
5	580	Private	Barani 1	0.0246000(Hectare)	0.0246000
6	581	Private	Barani 1	0.0398000(Hectare)	0.0398000
7	583	Private	Barani 1	0.0267000(Hectare)	0.0267000
8	585	Private	Banjad	0.1204000(Hectare)	0.1204000
9	587	Private	Barani 1	0.0093000(Hectare)	0.0093000
10	717	Private	Barani 1	0.0129000(Hectare)	0.0129000
11	719	Private	Barani 1	0.0012000(Hectare)	0.0012000
12	720	Private	Banjad	0.0317000(Hectare)	0.0317000
13	721	Private	Barani 1	0.0337000(Hectare)	0.0337000
14	722	Private	Barani 1	0.0251000(Hectare)	0.0251000
15	723	Private	Barani 2	0.0085000(Hectare)	0.0085000
16	724	Private	Barani 1	0.0080000(Hectare)	0.0080000
17	725	Private	Barani 1	0.0096000(Hectare)	0.0096000
18	726	Private	Barani 1	0.0306000(Hectare)	0.0306000

19	727	Private	Barani 1	0.0460000(Hectare)	0.0460000
20	728	Government	Ge.Mu.Magri	0.0157000(Hectare)	0.0157000
21	729	Private	Barani 1	0.0462000(Hectare)	0.0462000
22	785 Mi	Government		0.0354000(Hectare)	0.0354000
23	789	Private	Banjad	0.0707000(Hectare)	0.0707000
24	795	Private	Barani 2	0.0362000(Hectare)	0.0362000
25	797	Private	Barani 2	0.0032000(Hectare)	0.0032000
26	798	Government	"Ge.Mu. Chattan"	0.0375000(Hectare)	0.0375000
27	799	Private	Barani 2	0.0722000(Hectare)	0.0722000
28	800	Private	Barani 2	0.0248000(Hectare)	0.0248000
29	801	Private	Barani 2	0.0412000(Hectare)	0.0412000
30	802	Private	Ge.Mu.Magri	0.1230000(Hectare)	0.1230000
31	804	Private	Barani 2	0.0203000(Hectare)	0.0203000
32	805	Private	Barani 2	0.0771000(Hectare)	0.0771000
33	806	Private	Ge.Mu.Khadda	0.0001000(Hectare)	0.0001000
34	808	Private	Barani 2	0.0374000(Hectare)	0.0374000
35	809	Private	Barani 2	0.0203000(Hectare)	0.0203000
36	810	Private	Barani 2	0.0220000(Hectare)	0.0220000
37	811	Private	Barani 1	0.0201000(Hectare)	0.0201000
38	822	Private	Banjar	0.2365000(Hectare)	0.2365000
39	823	Private	Barani 2	0.0343000(Hectare)	0.0343000
40	824	Private	Barani 2	0.1012000(Hectare)	0.1012000
41	834 Mi	Government	Ge.Mu.Pahad	0.3378000(Hectare)	0.3378000
Village: Badiya heera					
1	1	Government	Ge.Mu.Jangal	1.2859000(Hectare)	1.2859000
2	322	Government	Ge.Mu.Magri	0.0606000(Hectare)	0.0606000
3	338	Private	Ge.Mu.Aabadi	0.0814000(Hectare)	0.0814000
4	339	Government	Ge.Mu.Paal	0.0027000(Hectare)	0.0027000
5	340	Government	Banjar	0.1774000(Hectare)	0.1774000
6	392	Private	Banjar	0.0303000(Hectare)	0.0303000
7	493	Private	Banjar	0.0724000(Hectare)	0.0724000
8	495	Private	Nahri 2	0.0317000(Hectare)	0.0317000
9	497	Private	Nahri 2	0.0337000(Hectare)	0.0337000
10	54	Government	Ge.Mu.Magri	0.0107000(Hectare)	0.0107000
11	545	Government	Banjar	0.0104000(Hectare)	0.0104000
12	55	Private	Barani 2	0.0354000(Hectare)	0.0354000

13	56	Private	Barani 1	0.0509000(Hectare)	0.0509000
14	57	Private	Barani 1	0.0333000(Hectare)	0.0333000
15	578/24	Government	Ge.Mu.Jangal	0.1874000(Hectare)	0.1874000
16	58	Private	Banjar	0.0011000(Hectare)	0.0011000
17	581/54	Government	Ge.Mu.Jangal	0.5985000(Hectare)	0.5985000
18	599/81	Private	Ge.Mu.Aabadi	0.0724000(Hectare)	0.0724000
19	628/3	Private	Banjar	0.0076000(Hectare)	0.0076000
20	629/3	Private	Banjar	0.0012000(Hectare)	0.0012000
21	68	Private	Banjar	0.0334000(Hectare)	0.0334000
22	81 mi	Government	Ge.Mu.Pahad	0.1070000(Hectare)	0.1070000
23	82	Private	Peta	0.0617000(Hectare)	0.0617000
24	83	Private	Peta	0.0302000(Hectare)	0.0302000
25	84	Private	Peta	0.0528000(Hectare)	0.0528000
Village: Fatakhera					
1	1000	Government	Banjar	0.0157000(Hectare)	0.0157000
2	1008	Private	Chahi 3, Jaav 3	0.0232000(Hectare)	0.0232000
3	1009	Private	Banjar	0.0539000(Hectare)	0.0539000
4	1010	Private	Banjar	0.0011000(Hectare)	0.0011000
5	1011	Private	Banjar	0.0585000(Hectare)	0.0585000
6	1015	Private	Barani 1	0.0167000(Hectare)	0.0167000
7	1016	Private	Barani 1	0.0104000(Hectare)	0.0104000
8	1017	Private	Jaav 3,Chahi 3	0.0122000(Hectare)	0.0122000
9	1018	Private	Chahi 3,Jaav 3	0.0184000(Hectare)	0.0184000
10	1019	Private	Chahi 1,Jaav 1	0.0072000(Hectare)	0.0072000
11	1020	Private	Jaav 3	0.0077000(Hectare)	0.0077000
12	1023	Private	Chahi 3	0.0095000(Hectare)	0.0095000
13	1035/998	Private	Ge.Mu.Paal	0.0267000(Hectare)	0.0267000
14	1067/762	Private	Banjar	0.0114000(Hectare)	0.0114000
15	1068/762	Private	Banjar	0.0135000(Hectare)	0.0135000
16	1069/762	Private	Banjar	0.0057000(Hectare)	0.0057000
17	1070/762	Private	Banjar	0.0116000(Hectare)	0.0116000
18	1071/762	Private	Banjar	0.0152000(Hectare)	0.0152000
19	1072/762	Private	Banjar	0.0040000(Hectare)	0.0040000
20	580	Government	Shamsan	0.1098000(Hectare)	0.1098000
21	584	Private	Barani 2	0.0124000(Hectare)	0.0124000
22	585	Government	Ge.Mu.Rasta	0.0080000(Hectare)	0.0080000

23	586	Government	Banjar	0.0220000(Hectare)	0.0220000
24	594	Private	Ge.Mu.Magri	0.0161000(Hectare)	0.0161000
25	596	Private	Chahi 2	0.0082000(Hectare)	0.0082000
26	598	Private	Chahi 1,Jaav 1	0.0093000(Hectare)	0.0093000
27	599	Private	Chahi 2	0.0735000(Hectare)	0.0735000
28	623	Private	Jaav 2,Chahi 2	0.0483000(Hectare)	0.0483000
29	647	Private	Banjar	0.0011000(Hectare)	0.0011000
30	679	Private	Chahi 2, Jaav 2	0.0581000(Hectare)	0.0581000
31	680	Private	Jaav 2, Chahi 2	0.0111000(Hectare)	0.0111000
32	681	Private	Chahi 2, Jaav 2	0.0118000(Hectare)	0.0118000
33	683	Private	Chahi 2, Jaav 2	0.0093000(Hectare)	0.0093000
34	684	Private	Banjar	0.0105000(Hectare)	0.0105000
35	685	Private	Chahi 2, Jaav 2	0.0120000(Hectare)	0.0120000
36	686	Private	Jaav 2, Chahi 2	0.0080000(Hectare)	0.0080000
37	695 Mi	Private	Banjar	0.0022000(Hectare)	0.0022000
38	761	Private	Peta	0.0083000(Hectare)	0.0083000
39	762 Mi	Private	Banjar	0.0859000(Hectare)	0.0859000
40	763	Government	Ge.Mu.Paal	0.0290000(Hectare)	0.0290000
41	765	Government	Ge.Mu.Magri	0.0388000(Hectare)	0.0388000
42	766	Private	Banjar	0.0187000(Hectare)	0.0187000
43	767	Private	Banjar	0.0180000(Hectare)	0.0180000
44	768	Private	Banjar	0.0558000(Hectare)	0.0558000
45	769	Private	Banjar	0.0290000(Hectare)	0.0290000
46	770	Government	Banjar	0.0407000(Hectare)	0.0407000
47	771	Private	Banjar	0.0759000(Hectare)	0.0759000
48	773	Private	Barani 1	0.0439000(Hectare)	0.0439000
49	793	Government	Charagah	0.0803000(Hectare)	0.0803000
50	817	Government	Charagah	0.0929000(Hectare)	0.0929000
51	818	Government	Charagah	0.2983000(Hectare)	0.2983000
52	819	Government	Ge.Mu.Rasta	0.0109000(Hectare)	0.0109000
53	821	Private	Ge.Mu.Chaha	0.0001000(Hectare)	0.0001000
54	822	Private	Chahi 1	0.1407000(Hectare)	0.1407000
55	823	Private	Chahi 2, Jaav 2	0.0343000(Hectare)	0.0343000
56	824	Private	Barani 1	0.0222000(Hectare)	0.0222000
57	826	Private	Barani 2	0.0126000(Hectare)	0.0126000
58	828	Private	Barani 1	0.0061000(Hectare)	0.0061000

59	831	Private	Banjar	0.1602000(Hectare)	0.1602000
60	832	Private	Barani 1	0.1903000(Hectare)	0.1903000
61	836	Private	Chahi 2	0.0009000(Hectare)	0.0009000
62	837	Private	Jaav 2,Chahi 2	0.1359000(Hectare)	0.1359000
63	838	Private	Chahi 1	0.0038000(Hectare)	0.0038000
64	993	Private	Peta	0.0152000(Hectare)	0.0152000
65	994	Private	Peta	0.0666000(Hectare)	0.0666000
66	995	Private	Peta	0.0997000(Hectare)	0.0997000
67	999	Government	Ge.Mu.Sadak	0.0080000(Hectare)	0.0080000
Village: Jasawant Pura					
1	379	Private	Ge.Mu. Aabadi	0.1705000(Hectare)	0.1705000
2	109	Private	Banjar	0.0351000(Hectare)	0.0351000
3	110	Private	Banjar	0.2011000(Hectare)	0.2011000
4	111	Private	Barani 2	0.0164000(Hectare)	0.0164000
5	112	Private	Banjar	0.3027000(Hectare)	0.3027000
6	113	Private	Barani 2	0.0343000(Hectare)	0.0343000
7	118	Private	Barani 2	0.0097000(Hectare)	0.0097000
8	131	Private	Barani 2	0.0116000(Hectare)	0.0116000
9	132	Private	Ge.Mu.Chah	0.0123000(Hectare)	0.0123000
10	133	Private	Barani 2	0.0083000(Hectare)	0.0083000
11	139	Private	Banjar	0.1112000(Hectare)	0.1112000
12	141	Private	Banjar	0.1470000(Hectare)	0.1470000
13	142	Private	Barani 2	0.0193000(Hectare)	0.0193000
14	146	Private	Ge.Mu.Nahar	0.0156000(Hectare)	0.0156000
15	197	Private	Ge.Mu. Aabadi	0.0558000(Hectare)	0.0558000
16	200	Private	Chahi 1,Jaav 1	0.0122000(Hectare)	0.0122000
17	202 Mi	Private	Chahi 1	0.0123000(Hectare)	0.0123000
18	203	Private	Chahi 1	0.0238000(Hectare)	0.0238000
19	204	Private	Chahi 1	0.0250000(Hectare)	0.0250000
20	205	Private	Chahi 1	0.0189000(Hectare)	0.0189000
21	207	Private	Barani 1	0.0324000(Hectare)	0.0324000
22	208	Private	Barani 1	0.0081000(Hectare)	0.0081000
23	209	Private	Chahi 1,Jaav 1	0.0165000(Hectare)	0.0165000
24	211	Private	Chahi 1Ge.Mu.	0.0294000(Hectare)	0.0294000
25	225	Private	Chahi 1	0.0170000(Hectare)	0.0170000
26	364	Government	Ge.Mu.Pahad	0.1764000(Hectare)	0.1764000

27	371 Mi	Government	Charagah	0.2392000(Hectare)	0.2392000
28	372	Government	Ge.Mu.Daati	0.1593000(Hectare)	0.1593000
29	374	Government	Ge.Mu.Pahad	0.0843000(Hectare)	0.0843000
30	377 Mi	Private	Banjar	0.0071000(Hectare)	0.0071000
31	378	Private	Barani 1	0.0214000(Hectare)	0.0214000
32	381	Private	Banjar	0.0050000(Hectare)	0.0050000
33	382	Private	Barani 1	0.0528000(Hectare)	0.0528000
34	386 Mi	Private	Nahri 2	0.0556000(Hectare)	0.0556000
35	387	Private	Banjar	0.0066000(Hectare)	0.0066000
36	388	Private	Nahri 2	0.0696000(Hectare)	0.0696000
37	389	Private	Nahri 2	0.0323000(Hectare)	0.0323000
38	424	Private	Chahi 1	0.0013000(Hectare)	0.0013000
39	445	Private	Chahi 1	0.0017000(Hectare)	0.0017000
40	446	Private	Chahi 1	0.0054000(Hectare)	0.0054000
41	447	Private	Chahi 1	0.0112000(Hectare)	0.0112000
42	448 mi	Private	Banjar	0.0165000(Hectare)	0.0165000
43	477	Government	Ge.Mu.Pahad	0.1632000(Hectare)	0.1632000
44	478	Private	Banjar	0.0082000(Hectare)	0.0082000
45	479	Private	Barani 2	0.0197000(Hectare)	0.0197000
46	480	Private	Barani 2	0.0244000(Hectare)	0.0244000
47	487	Private	Banjar	0.0043000(Hectare)	0.0043000
48	488	Government	Ge.Mu.Pahad	0.0724000(Hectare)	0.0724000
49	494/371	Government	School	0.0483000(Hectare)	0.0483000
50	495/372	Government	Shamshan	0.0257000(Hectare)	0.0257000
51	507/383	Private	Banjar	0.0361000(Hectare)	0.0361000
52	508/384	Private	Nahri 2	0.0451000(Hectare)	0.0451000
53	511/125	Private	Banjar	0.4180000(Hectare)	0.4180000
54	512/130	Private	Barani 2	0.0381000(Hectare)	0.0381000
55	514/202	Private	Chahi 1	0.0165000(Hectare)	0.0165000
56	515/448	Private	Banjar	0.0080000(Hectare)	0.0080000
Village: Kaniya Khera					
1	141	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0147000(Hectare)	0.0147000
2	147	Private	Barani 1	0.0045000(Hectare)	0.0045000
3	148	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0033000(Hectare)	0.0033000
4	247	Government	"Pathvari Ge.Mu."	0.0087000(Hectare)	0.0087000
5	248	Private	"Chahi 3 Jaav 3"	0.0015000(Hectare)	0.0015000

6	249	Private	"Chahi 3 Jaav 3"	0.0101000(Hectare)	0.0101000
7	261	Private	Barani 2	0.0027000(Hectare)	0.0027000
8	262	Private	"Chahi 3 Jaav 3"	0.0033000(Hectare)	0.0033000
9	264	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0293000(Hectare)	0.0293000
10	266	Private	Barani 2	0.0083000(Hectare)	0.0083000
11	269	Private	"Chahi 3 Jaav 3"	0.0824000(Hectare)	0.0824000
12	270	Private	"Chahi 3 Jaav 3"	0.0955000(Hectare)	0.0955000
Village: Peepli ka Badiya					
1	101	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0010000(Hectare)	0.0010000
2	102	Private	"Jaav 2 Chahi 2"	0.0263000(Hectare)	0.0263000
3	112	Private	"Ge.Mu. Rasta"	0.0130000(Hectare)	0.0130000
4	113	Private	"Chahi 1 Jaav 1"	0.0378000(Hectare)	0.0378000
5	114	Private	"Jaav 2 Chahi 2"	0.0400000(Hectare)	0.0400000
6	115	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0270000(Hectare)	0.0270000
7	116	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0160000(Hectare)	0.0160000
8	117	Private	Chahi 2	0.0076000(Hectare)	0.0076000
9	121	Private	"Ge.Mu. Makan"	0.0514000(Hectare)	0.0514000
10	122	Private	"Jaav 3 Chahi 3"	0.0902000(Hectare)	0.0902000
11	123	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0342000(Hectare)	0.0342000
12	124	Private	Jaav 3	0.0435000(Hectare)	0.0435000
13	125	Private	Barani 1	0.0133000(Hectare)	0.0133000
14	126	Private	Barani 1	0.0101000(Hectare)	0.0101000
15	128	Government	Charagah	0.3562000(Hectare)	0.3562000
16	151	Government	Charagah	0.5361000(Hectare)	0.5361000
17	2176/384	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0045000(Hectare)	0.0045000
18	2178/786	Private	Banjar	0.1456000(Hectare)	0.1456000
19	2197/151	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0200000(Hectare)	0.0200000
20	2209/729	Private	Chahi 1	0.0004000(Hectare)	0.0004000
21	237	Private	Banjar	0.0085000(Hectare)	0.0085000
22	238	Private	"Ge.Mu. Baada "	0.0551000(Hectare)	0.0551000
23	239	Private	Talab 2	0.0295000(Hectare)	0.0295000
24	240	Private	Chahi 1	0.0471000(Hectare)	0.0471000
25	241	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0044000(Hectare)	0.0044000
26	243	Private	Chahi 1	0.0045000(Hectare)	0.0045000
27	244	Private	"Chahi 1 Jaav 1"	0.0095000(Hectare)	0.0095000
28	245	Private	"Chahi 1 Jaav 1"	0.0067000(Hectare)	0.0067000

29	246	Private	"Chahi 1 Jaav 1"	0.0054000(Hectare)	0.0054000
30	247	Private	"Chahi 1 Jaav 1"	0.0041000(Hectare)	0.0041000
31	248	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0052000(Hectare)	0.0052000
32	249	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0498000(Hectare)	0.0498000
33	254	Government	Ge.Mu. Rasta	0.0115000(Hectare)	0.0115000
34	258	Private	Ge.Mu.	0.0494000(Hectare)	0.0494000
35	259	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0639000(Hectare)	0.0639000
36	26	Private	Ge.Mu. Paal	0.0157000(Hectare)	0.0157000
37	271	Private	Chahi 1	0.0247000(Hectare)	0.0247000
38	272	Private	Chahi 1	0.0195000(Hectare)	0.0195000
39	273	Private	Chahi 1	0.0369000(Hectare)	0.0369000
40	274	Private	Chahi 1, Jaav 1	0.0081000(Hectare)	0.0081000
41	294	Private	"Ge.Mu. Paal"	0.0125000(Hectare)	0.0125000
42	296	Private	"Jaav 3 Chahi 3"	0.0736000(Hectare)	0.0736000
43	297	Private	Barani 1	0.0243000(Hectare)	0.0243000
44	298	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0132000(Hectare)	0.0132000
45	299	Private	Banjar	0.0797000(Hectare)	0.0797000
46	30	Private	Chahi 1	0.0432000(Hectare)	0.0432000
47	300	Private	Barani 2	0.0053000(Hectare)	0.0053000
48	301	Private	Barani 1	0.0009000(Hectare)	0.0009000
49	310	Private	Banjar	0.0385000(Hectare)	0.0385000
50	32	Private	Chahi 1	0.0527000(Hectare)	0.0527000
51	329	Private	Banjar	0.0242000(Hectare)	0.0242000
52	33	Private	Banjar	0.0201000(Hectare)	0.0201000
53	330	Private	Banjar	0.0094000(Hectare)	0.0094000
54	34	Private	Barani 1	0.0701000(Hectare)	0.0701000
55	35	Private	Barani 1	0.0364000(Hectare)	0.0364000
56	36	Private	Chahi 1	0.0038000(Hectare)	0.0038000
57	361	Private	Banjar	0.0534000(Hectare)	0.0534000
58	370	Private	Banjar	0.0088000(Hectare)	0.0088000
59	371	Private	Banjar	0.0020000(Hectare)	0.0020000
60	378	Private	Banjar	0.0167000(Hectare)	0.0167000
61	38	Private	Chahi 1	0.1003000(Hectare)	0.1003000
62	380	Private	Barani 1	0.0008000(Hectare)	0.0008000
63	382	Private	Barani 2	0.0684000(Hectare)	0.0684000
64	384	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0092000(Hectare)	0.0092000

65	39	Private	Barani 1	0.0131000(Hectare)	0.0131000
66	40	Private	Banjar	0.0340000(Hectare)	0.0340000
67	41	Private	Barani 1	0.0184000(Hectare)	0.0184000
68	45	Private	Barani 2	0.0136000(Hectare)	0.0136000
69	452	Private	Banjar	0.0332000(Hectare)	0.0332000
70	453	Private	"Chahi 1 Jaav 1"	0.1001000(Hectare)	0.1001000
71	455	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0118000(Hectare)	0.0118000
72	456	Private	Chahi 1 Jaav 1	0.0295000(Hectare)	0.0295000
73	457	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0244000(Hectare)	0.0244000
74	458	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0110000(Hectare)	0.0110000
75	459	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0004000(Hectare)	0.0004000
76	46	Private	Barani 2	0.0415000(Hectare)	0.0415000
77	460	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0188000(Hectare)	0.0188000
78	47	Private	Barani 2	0.1029000(Hectare)	0.1029000
79	478	Government	"Ge.Mu. Magri"	0.0035000(Hectare)	0.0035000
80	48	Private	Chahi 2	0.0173000(Hectare)	0.0173000
81	50	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0578000(Hectare)	0.0578000
82	51	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0340000(Hectare)	0.0340000
83	52	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0330000(Hectare)	0.0330000
84	612	Government	"Ge.Mu. Rasta"	0.0026000(Hectare)	0.0026000
85	615	Private	Barani 2	0.0029000(Hectare)	0.0029000
86	726	Private	Banjar	0.0195000(Hectare)	0.0195000
87	727	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0193000(Hectare)	0.0193000
88	728	Private	Chahi 1	0.0421000(Hectare)	0.0421000
89	730	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0027000(Hectare)	0.0027000
90	744	Private	Chahi 1	0.0166000(Hectare)	0.0166000
91	745	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0364000(Hectare)	0.0364000
92	748	Private	Peta	0.0073000(Hectare)	0.0073000
93	749	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0153000(Hectare)	0.0153000
94	750	Private	"Ge.Mu. Odava"	0.0155000(Hectare)	0.0155000
95	751	Private	"Jaav 2 Chahi 2"	0.0030000(Hectare)	0.0030000
96	752	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0152000(Hectare)	0.0152000
97	753	Private	"Chahi 2 Jaav 2"	0.0229000(Hectare)	0.0229000
98	754	Private	Barani 2	0.0166000(Hectare)	0.0166000
99	757	Private	Barani 2	0.0126000(Hectare)	0.0126000
100	758	Private	Barani 2	0.0362000(Hectare)	0.0362000

101	766	Government	"Ge.Mu. Rasta"	0.0071000(Hectare)	0.0071000
102	768	Private	"Ge.Mu. Aabadi"	0.0349000(Hectare)	0.0349000
103	769	Private	"Ge.Mu. Chah"	0.0214000(Hectare)	0.0214000
104	770	Private	"Ge.Mu. Baada "	0.0049000(Hectare)	0.0049000
105	772	Private	"Jaav 1 Chahi 1"	0.0395000(Hectare)	0.0395000
106	781	Private	Banjar	0.0581000(Hectare)	0.0581000
107	784	Private	Banjar	0.0040000(Hectare)	0.0040000
108	785	Private	Barani 1	0.0707000(Hectare)	0.0707000
109	786	Private	Barani 1	0.0044000(Hectare)	0.0044000
110	787	Private	Banjar	0.1214000(Hectare)	0.1214000
111	834 mi	Government		0.0749000(Hectare)	0.0749000
112	955/44	Private	Barani 2	0.0172000(Hectare)	0.0172000
Total				16.3273	16.3273

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3A9]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.